



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 11, 2008/माघ 22, 1929

No. 193]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 11, 2008/MAGHA 22, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2008

का.आ. 289(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1427(अ), तारीख 17 अगस्त, 2007, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3 उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के 239.000 कि.मी. से 287.000 कि.मी. (झांसी-लखनादौन सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 21 सितम्बर, 2007 को "राज्य की नई दुनिया" और "राज एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची								
मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के 239,000 कि.मी. से 287,000 कि.मी. (झोंसी - लखनादौन सेक्शन) तक के भूखंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन।								
क्र.स	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण/खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सागर	(1)देवरी	(i)सेमराखेड़ी	75	शासकीय	नाला	0.104	म.प्र. शासन
				74/1	निजी	सिंचित	0.150	परबोत्तम प्रहलाद शेवसींग पिस. कनई वृजरानी वेवा कनई भा. देह
				74/2	निजी	सिंचित	0.040	मोहन पिता पदम सिंह सा. देह
				73	निजी	असिंचित	0.028	परबोत्तम प्रहलाद शेवसींग पिस. कनई वृजरानी वेवा कनई मोहन बैयाराम पिस. पदम सिंह निर्मय सिंह हरीशंकर दिलीप सरमन विहारी पिता भरान सिंह सा. देह
				71/3	निजी	असिंचित	0.700	निधी जोजे सुनील कुमार सा. सागर
				71/4	शासकीय	छोटाघास	0.120	म.प्र. शासन
				150	निजी	सिंचित	0.020	रामसिंह पिता बैजनाथ
				39	शासकीय	पानी	0.001	म.प्र. शासन
				42	शासकीय	छोटाघास	0.001	म.प्र. शासन
				43	शासकीय	रास्ता	0.001	म.प्र. शासन
				154/2	निजी	सिंचित	0.232	सौरभ वल्लद शिवदयाल सोनी सा. देवरी
				44/1	शासकीय	छोटाघास	0.160	म.प्र. शासन
				173	निजी	सिंचित	0.030	सौरभ वल्लद शिवदयाल सोनी सा. देवरी
				172	निजी	सिंचित	0.190	बाबूलाल पिता गणेश प्रसाद सा. देवरी
				174	निजी	सिंचित	0.040	राजकुमार वल्लद लक्ष्मीप्रसाद सा. सिलारी
				175	निजी	सिंचित	0.124	रामसिंह पिता बैजनाथ सा. देवरी
				149/2	निजी	सिंचित	0.080	प्रताप गिरधारी, चूरामन पिता रामदयाल सा. झुनकू
				148/1	निजी	सिंचित	0.088	प्रिस पिता नरेश चंद सा. सागर
				148/2	निजी	सिंचित	0.020	पार्वती वेवा गोटीराम कमल भगवान सिंह पिता गोटीराम प्रेमलता पुत्री गोटीराम सा. देह
				148/3	निजी	सिंचित	0.012	अनारकली पति शिवकुमार सा. देवरी
				68	शासकीय	रास्ता	0.005	म.प्र. शासन
				152	शासकीय	सडक	2.700	म.प्र. शासन
				69	शासकीय	सडक	1.420	म.प्र. शासन
			(ii)सिलारी	455	शासकीय	नाला	0.040	म.प्र. राज्य शासन
				456	निजी	सिंचित	0.189	मनोज कुमार पिता लक्ष्मीनारायण सा. बेलढाना
				468/1	शासकीय	नाला	0.060	म.प्र. राज्य शासन
				239	निजी	सिंचित	0.110	रविशंकर पिता लक्ष्मीप्रसाद सा. बेलढाना

				465	निजी	असिंचित	0.008	रमाकान्त, नन्दकिशोर पिस, अदुतीनदन सा. बेलढाना भूमि
				461	निजी	सिंचित	0.303	रामबाई पति लक्ष्मीप्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद वल्द शिवप्रसाद सा. देह
				462	निजी	सिंचित	0.300	गुलाब, रामसहाय, शेवराम, प्रकाश, ओमकार पिस तुलसीराम, कुसुमरानी बेवा तुलसीराम, प्रभा, ममता, विमला बाई, छोटी बाई पुत्री तुलसीराम सा. देह भूमि
				490	शासकीय	रास्ता	0.023	म.प्र. राज्य शासन
				499/1	निजी	असिंचित	0.051	रति बाई, नीमा बाई, सुशीला बाई पुत्री काशीराम, लखन, तुलसीराम, हुकम, मुन्ना पिस मन्मूलाल
				499/2	निजी	असिंचित	0.056	दिनेश, मयंक पिता तुलसीराम
				499/3	निजी	असिंचित	0.005	अरुण कुमार वल्द परशराम सा. देवरी
				500/1	निजी	सिंचित	0.230	हरीकृष्ण वल्द गोपाल प्रसाद सा. बेलढाना
				500/7	निजी	असिंचित	0.320	जितेन्द्र कुमार वल्द शीतल प्रसाद सा. सागर
				511/1	निजी	असिंचित	0.051	रामकिशन, अशोक कुमार नाबा० वल्द व बलि राघुवर प्रसाद सा. देह भूमि
				529/3	निजी	सिंचित	0.210	कुरेशाबी पति रमजान खान सा. देवरी
				529/4	निजी	सिंचित	0.020	करीम खं, शरीफ खा पिस. मोपाल खा सा. देवरी
				541	निजी	सिंचित	0.070	शिखरचंद वल्द कन्हेदी सा. बेलढाना
				544	निजी	सिंचित	0.160	शिखरचंद वल्द कन्हेदी सा. बेलढाना
				545	शासकीय	रास्ता	0.047	म.प्र. राज्य शासन
				458	निजी	सिंचित	0.380	पी.एम.एम. वादसा वल्द पी.एम. युसुफ सा. झुनकू
				536	निजी	सिंचित	0.030	महगू, मन्नु, महेश पिसरान बाबूलाल, रामवती पुत्री बाबूलाल सा. देह
			(iii)झुनकू	311	निजी	सिंचित	0.018	कुन्दन सिंह वल्द मोहन सींग सा. देह भूस्वामि
				312/4	निजी	असिंचित	0.120	सदर मदरसा, उमरबिन, खत्ताब सा. झुनकू, मुहम्मद हाफिज, मु० शईद सा. राहतगढ़ निगरानी, इरादा जोजे सिदीफ, आमिया, अरविया, हथोरा जिला बांदा
				312/7	निजी	असिंचित	0.003	अल्ताउद्दीन पिता सुबराती सा. देह भूस्वामी
				312/8	निजी	असिंचित	0.004	हाफिज, शहीद, अहमद पिता अहमद नूरी सा. देह भूस्वामि
				313/2	निजी	असिंचित	0.060	अमरबिन, खिताब, मदरसा देवरी, मु० हाफिज, शहीद पिता अहमद नूरी सा. देह भूस्वामि
				314	शासकीय	पानी	0.030	म.प्र. राज्य शासन
			(iv)रजौला	62/1	निजी	सिंचित	0.239	चम्पा बाई पुत्री खेत सींग सा. बेलढाना
				62/2	निजी	सिंचित	0.100	जमील खा पिता डिब्बा खा
				44	शासकीय	पानी	0.010	म.प्र. राज्य शासन

			64	निजी	सिंचित	0.047	मानसींग, तुलसीराम पिस, बलराम, फूलरानी बेवा बलराम, बाबूलाल, विजय, श्रीधर, भुजबल, फूलसींग पिस धनसींग, बालीबाई पुत्री धनसींग, जगरानी, बेवा धनसींग, चंद्रराम, भैयाराम, किशोरी, पिस मनोहर, इन्द्रानी बेवा मनोहर, कोसाबाई, तुलसाबाई पुत्री मनोहर, जमना प्रसाद, धम्मन, शिवप्रसाद, बैजनाथ, नरान पिस, परमानंद रामदुलारी बेवा परमानंद, गनेशी बाई, भाग बाई पुत्री परमानंद सा. बेलढाना
			249	निजी	सिंचित	0.040	बैजन्ती पुत्री सेव प्रसद
			65	शासकीय	पानी	0.049	म.प्र. राज्य शासन
			67	शासकीय	रास्ता	0.240	म.प्र. राज्य शासन
			72	निजी	सिंचित	0.162	इन्द्रानी जोजे मनोहर सा. बेलढाना
			70/1	निजी	सिंचित	0.145	बाबूलाल, विजय, श्रीधर, भुजबल, फूलसींग, पि. धनसींग, बालोबाई पुत्री धनसींग, चंदरानी, भैयाराम, किशोरी पिता मनोहर, जमनाप्रसाद, धम्मन, शिवप्रसाद, बैजनाथ, नयन पिता परमानंद, रामदुलारी बेवा परमानंद, गनेशीबाई, भागबाई पुत्री परमानंद
			250	निजी	सिंचित	0.146	विपिन वल्लभ ज्ञानचंद सा. देवरी
			255	निजी	सिंचित	0.150	घासीराम, फदाती पिता कीरथ, तुलसा पुत्री कीरथ, महगू, गोरेलाल पिता चेतु, शकुन बाई पुत्री नन्सा, फूलरानी बेवा नन्सा
			259/3	निजी	सिंचित	0.500	सुधीर वल्लभ सुभाष चंद सा. बेलढाना
			259/4	निजी	सिंचित	0.240	मानसींग, तुलसीराम पिस, बलराम, बाबूलाल, विजय, श्रीधर, भुजबल, फूलसींग पिस धनसींग, बालीबाई पुत्री धनसींग, चंद्रराम, भैयाराम, किशोरी, पिस मनोहर, इन्द्रानी बेवा मनोहर, तुलसाबाई पुत्री मनोहर, जमना प्रसाद, धम्मन, शिवप्रसाद, बैजनाथ, नरान पिस, परमानंद
			257/5	निजी	सिंचित	0.487	संतोष वल्लभ नन्हे भाई सा. देवरी
			83	निजी	सिंचित	0.013	रविशंकर वल्लभ शिवसाय सा. बेलढाना
			292	शासकीय	पानी	0.020	म.प्र. राज्य शासन
		(v)गोपालपुरा	30/2	निजी	सिंचित	0.150	टीकाराम पिता उददेत सा0 गोपालपुरा
			31/5	निजी	असिंचित	0.010	रामजी पुत्र रामस्वरूप सा0 गोपालपुरा
			31/6	निजी	असिंचित	0.040	गोपाल वल्लभ कल्याण
			31/7	निजी	असिंचित	0.080	मुरलीधर सा0 देवरी
			31/8	निजी	असिंचित	0.040	मोहन पिता हल्के
		(vi)छेवला	42/2	निजी	असिंचित	0.030	धर्मनंद वल्लभ कन्हैया लाल सा0 देवरी
			20/3	निजी	सिंचित	0.027	अमर सिंह पुत्र खिलान
		(vii)रीछई	349	शासकीय	सडक	0.100	म.प्र. राज्य शासन

			350	शासकीय	असिंचित	0.074	म.प्र. राज्य शासन
			351	शासकीय	असिंचित	0.010	म.प्र. राज्य शासन
			118/2	निजी	असिंचित	0.003	माखनलाल वल्द परमानंद साठ देह
			90	निजी	असिंचित	0.091	अजय पिता नारायण, उषा मुरी पिता नारायण, लखन लाला पिता नारायण
	(viii)धनगुवा		124/5	निजी	सिंचित	0.020	त्रिभुवन, हुकुम, अच्छे लाल, रमेश पिसठ लटोरी साठ रीछई
	(ix)महाराजपुर		232/1	शासकीय	सिंचित	0.001	म.प्र. राज्य शासन
			76/7	निजी	असिंचित	0.009	अश्वभ कुमार वल्द चंद्र कुमार
	(x)निवारी		93/1	निजी	सिंचित	0.092	डालचंद पिता बाबूलाल साठ पनारी
	(xi)सिंहपुर		76/1	निजी	सिंचित	0.020	प्रकाश वल्द परमानंद
	मढ़पिपरिया		153/173	निजी	सिंचित	0.409	सावित्री बाई पुत्री कन्हैयालाल साठ तीतरपानी
			153	निजी	सिंचित	0.144	पलू वल्द रतन साठ देह
			148	शासकीय	सडक	0.005	म.प्र. राज्य शासन
			135/1	निजी	असिंचित	0.260	प्रेम बाई पुत्री साठ तीतरपानी
			135/2	निजी	सिंचित	0.200	फूलसिंह वल्द भगवान सिंह साठ सिंहपुर
			133	शासकीय	छोटाघास	0.030	म.प्र. राज्य शासन
			134	निजी	असिंचित	0.029	रामनाथ, महेश पिता राजाराम, अवधेश कुमार पुत्र बैजनाथ, उर्मिला, निर्मला पुत्री बैजनाथ, भगवत शरण वल्द गौरीशंकर उषा बाई पुत्री गौरीशंकर सुशीला बाई पति गौरीशंकर
	(xii)कांसखेडा		7	शासकीय	छोटाघास	0.719	म.प्र. राज्य शासन
			9/1, 9/2	निजी	सिंचित	1.400	लक्ष्मीनारायण, बालमुकुन्द पिता भुवानी प्रसाद, मनीष कुमार, आशीष कुमार पिता दीनानाथ सा. देवरी
			94	निजी	सिंचित	0.020	रघुनाथ, भगवानदास, रमेश, सुखराम पिता देवकरन काछी सा. डोमा
			111/1	निजी	सिंचित	0.113	प्रवीण कुमार वल्द दशरथ लाल सा. बेलढाना
			111/2	निजी	सिंचित	0.020	रामचरन, परशोत्तम, भगवत प्रसाद, गनेश प्रसाद पिस भगवानदास, दुर्गा बाई बेवा भगवानदास सा. देवरी
			109/1	निजी	सिंचित	0.165	कुदऊ सींग, भोला सींग, परशराम पिस भुवानी सिंह, गौरा बाई पुत्री भुवानी सिंह, रामवती बेवा, भुवानी सिंह सा. देह
			104	निजी	सिंचित	0.027	आशीष वल्द दीनानाथ, शरद कुमार वल्द लक्ष्मीनारायण सा. देवरी
			105	निजी	सिंचित	0.058	लक्ष्मीनारायण वल्द भुवानी प्रसाद सा. देवरी
			204	निजी	सिंचित	0.020	विनय कुमार वल्द रघुनंदन सा. देह
			205	निजी	सिंचित	0.218	कमल वल्द छैकोडी सा. देवरी
			194	शासकीय	रास्ता	0.722	म.प्र. राज्य शासन
			206	निजी	सिंचित	0.004	बालचंद्र वल्द नन्हेलाल सा. देवरी

			201	निजी	सिधित	0.085	बैजनाथ, शिवप्रसाद बालिंग बाबूलाल नाबा० पिस नर्मदा प्रसाद, पालक व खुद मा चिरोजा बाई बेवा नर्मदा प्रसाद सा. देवरी
			200/3	निजी	सिधित	0.032	अनिल कुमार वल्द कोमल चंद सा. बेलढाना
			210/2	निजी	सिधित	0.060	परशराम वल्द बाबूलाल काछी सा. देह
			213/1	निजी	सिधित	0.050	भैयालाल वल्द बाबूलाल काछी सा. देह
			209/1	निजी	सिधित	0.060	तुलसीराम वल्द नन्तराम सा. देवरी
		(xiii)छीर	124/1	निजी	सिधित	0.180	जगन्नाथ, लक्ष्मीनारायण पिता रामप्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद वल्द लक्ष्मीनारायण सा. सागर
			125/7	निजी	सिधित	0.004	राजेश कुमार वल्द प्रकाश चन्द जैन सा. गापी बाई देवरी
			136/2	निजी	सिधित	0.160	भगोहर राव कृष्णराव पिता नारायण राव, भागचंद व दिवाकर राव सा. देवरी
			136/5, 6	निजी	सिधित	0.020	राजाराम वल्द वैष्णो माधव सा. देवरी
			136/10	निजी	सिधित	0.008	अरविन्द कुमार वल्द शंकरलाल बैलंग सा. कटनी
			161/2	निजी	सिधित	0.058	रामनाथ वल्द छोटेजाल काछी सा. देह
			161/4	निजी	सिधित	0.012	बालकिशन वल्द रामप्रसाद काछी सा. देह
			161/1	निजी	सिधित	0.100	मनोहर कुमार वल्द भाषम प्रसाद, सौरभ कुमार वल्द रामरत्न सा. देवरी
			161/2	निजी	सिधित	0.010	सुभाकांत वल्द कलशदेवी जाल सा. देवरी
			162/1	निजी	सिधित	0.003	रूपनारायण वल्द दिलचन्द रामदास वल्द झलकन सरान वल्द छोटेजाल काछी सा. देह
			162/2	निजी	सिधित	0.017	सरभन वल्द छोटेजाल सा. देह
			205	निजी	सिधित	0.060	कमलरानी पति रामप्रसाद काछी सा. देह
			204	निजी	असिधित	0.040	मुरलीधर वल्द भागेश सा. देह
			203	निजी	असिधित	0.020	दभानी वल्द करोजी सा. देह
			202	निजी	असिधित	0.020	रामप्रसाद वल्द कशाली सा. देह
			201	निजी	असिधित	0.016	शोभाशरम वल्द मैयराव सा. देवरी
			200	निजी	असिधित	0.010	वंश वल्द मानसींग सा. देवरी
			199/1	निजी	असिधित	0.010	प्रकाश वल्द बालचन्द सा. देवरी
			199/2	निजी	असिधित	0.010	अमन कुमार वल्द नमचंद सा. देवरी
			198	निजी	असिधित	0.020	महेन्द्र कुमार वल्द शम्भुन सा. देवरी
			197/1	निजी	सिधित	0.032	शंकर वल्द जगन्नाथ सा. देह
			197/16	निजी	सिधित	0.008	शंकर वल्द जगन्नाथ सा. देह
			197/2	निजी	असिधित	0.040	मुरलीधर वल्द भागेश सा. देह
			197/3	निजी	सिधित	0.016	सुनीता बाई पति अनिल कुमार सा. देवरी
			197/4	निजी	सिधित	0.008	इन्दा गोज प्रमोद कुमार सा. वराशिवनी

			197/5	निजी	सिंचित	0.048	रघुनाथ सिंह, कैलाश सिंह, हरनाम सिंह, बलराम सिंह, अशोक सिंह, बृजेन्द्र सिंह पिस गंधर्व सिंह सा. देवरी
			197/13	निजी	सिंचित	0.008	इन्द्रा जोजे प्रमोद कुमार सा. बराशिवनी
			197/14	निजी	सिंचित	0.020	सुनीता बाई पति अनिल कुमार सा. जबलपुर
			197/6	निजी	असिंचित	0.016	कमला बाई पुत्री फूलचंद सा. देवरी
			197/7	निजी	असिंचित	0.010	परशराम वल्लद शालकराम सा. देवरी
			197/8	निजी	असिंचित	0.008	घनश्याम वल्लद शिवप्रसाद सा. देह
			197/9	निजी	असिंचित	0.014	कैलाश वल्लद बाबूलाल, आकाश नाबा० बबली, सविता बाई सा. देवरी
			197/10	निजी	असिंचित	0.032	रमेशचंद वल्लद जोहरी लाल जैन सा. बंदा
			197/11	निजी	असिंचित	0.008	रमेशचंद वल्लद जोहरी लाल जैन सा. बंदा
			197/12	निजी	असिंचित	0.016	अरविन्द कुमार वल्लद राधेलाल, किरण बाई बेया निजम कुमार सा. देवरी
			196	निजी	असिंचित	0.012	तुलसीराम वल्लद रघुनाथ सा.देवरी
			195/3	निजी	सिंचित	0.050	नर्मदा प्रसाद वल्लद बलराम सा. देह
			195/2	निजी	सिंचित	0.050	नन्दराम वल्लद बलराम सा. देह
			195/4	निजी	सिंचित	0.120	मनोहरलाल वल्लद बलराम सा. देह
			194/1	शासकीय	असिंचित	0.020	म.प्र. राज्य शासन शिक्षा विभाग
			194/3	निजी	सिंचित	0.060	जयराम वल्लद रामचरण सा. देह
			194/4	निजी	सिंचित	0.050	पुखराज वल्लद रामचरण सा. देह
			206	शासकीय	सड़क	1.470	म.प्र. राज्य सरकार एन.एच.26
			225/9	निजी	सिंचित	0.002	संतोष कुमार, सजय कुमार वल्लद शिखरचंद सा. देवरी
			225/16	निजी	सिंचित	0.004	तेजराम नाबा० प्रेमनारायण बलि मा नन्हीबाई जोजे प्रेमनारायण सा. देवरी
			225/15	निजी	असिंचित	0.008	परशराम वल्लद बाबूलाल सा. देवरी
			225/17	निजी	असिंचित	0.012	अनूप, अतुल नाबा० वल्लद व बलि महेश वल्लद हुकुमचंद सा. तेंदुडावर
			225/18	निजी	असिंचित	0.004	अमय कुमार नाबा० वल्लद व बलि जिनेश कुमार वल्लद हुकुम चंद सा. देवरी
			225/19	निजी	असिंचित	0.004	आशा जोजे महेश, महेश वल्लद हुकुमचंद सा. देवरी
			225/20	निजी	असिंचित	0.012	अलका पति जितेन्द्र कुमार सा. देवरी
			224/1	निजी	असिंचित	0.111	भगवांदास, जयराम, मनोहर, पिस रत्न, मकुन्दीलाल वल्लद बालकिशुन, तुलसीराम, अनतराम, परशराम, भैयालाल, कन्हैयालाल पिस बब्बू, बेटी बाई, लक्ष्मी बाई पुत्री बब्बू, इन्दानी बेया बब्बू सा. देह
			224/2	निजी	असिंचित	0.020	छोटेलाल वल्लद बाबूलाल सा. देह
			211/1	निजी	असिंचित	0.002	गुलाब रानी बेया भगवानदास खिलोना बेया जमना प्रसाद सा. देह
			211/2	निजी	असिंचित	0.020	सौरभ वल्लद शिवदयाल सोनी सा. देवरी

				211/3	निजी	असिंचित	0.065	झलकन वल्द कन्हैया लाल, तुलसीराम वल्द बाबूलाल सा. देह
				211/4	निजी	असिंचित	0.067	महेन्द्र सींग वल्द प्रकाश सींग, प्रहलाह सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह पिस मुरलीधर सा. देह
				211/5	निजी	असिंचित	0.012	सीताराम वल्द बसंत कुमार सा. देवरी
				211/6	निजी	असिंचित	0.026	गुलाब रानी पति मिटटूलाल जैन सा. देवरी
				211/7	निजी	असिंचित	0.016	गणेश वल्द भगवानदास सा. देवरी
				211/8	निजी	असिंचित	0.012	सुरेन्द्र वल्द कच्छेदी लाल सा. देवरी
				207/3	निजी	असिंचित	0.070	शिवानी, कंचन नाबा० पुत्री सुरेश कुमार बलि व खुद मां किरण बेवा सुरेश कुमार सा. देवरी
				207/2	निजी	असिंचित	0.213	राजेन्द्र कुमार वल्द बाबूलाल सोनी सा. देवरी
				207/1	निजी	असिंचित	0.036	राकेश वल्द शोभाराम सा. देवरी
				136/8	निजी	असिंचित	0.020	श्रीनिवास वल्द बेनीमाधव सा. देवरी
				140/2	निजी	असिंचित	0.036	राजाराम वल्द बेणी माधव सा. देवरी
				139	शासकीय	नाला	0.020	म.प्र. राज्य शासन
				143	शासकीय	नाला	0.027	म.प्र. राज्य शासन
				225/5	निजी	असिंचित	0.010	अरविन्द कुमार अजय कुमार पिस मुलयचंद सा. देवरी
				76	शासकीय	सडक	0.130	म.प्र. राज्य शासन
			(xiv)धूलतारा	89/3	निजी	सिंचित	0.253	सुशीम वल्द प्रेमनारायण सा. देवरी
				89/4	निजी	सिंचित	0.120	परसराम वल्द प्रेमनारायण सा. देह
				89/8	निजी	असिंचित	0.010	तेजराम वल्द मोहन लाल सा. छीर
				91/1	निजी	सिंचित	0.100	कमलेश कुमार वल्द भैया लाल सा. देवरी
				96/2	निजी	सिंचित	0.030	भालचंद वल्द दिवाकरराव सा. देवरी
				136/2	निजी	सिंचित	0.060	कुसुम जोजे दयाशंकर सा. करेली
				169	निजी	सिंचित	0.100	सरला जोजे खेमचंद सा. देवरी
				91/2, 92	निजी	सिंचित	0.210	अमन नाबा वल्द व बली नरेन्द्रकुमार सा. देवरी
				123/3	निजी	सिंचित	0.108	राजीवकुमार वल्द महेन्द्र कुमार सा. देवरी
				123/5	निजी	सिंचित	0.009	मनीष कुमार वल्द दीनानाथ सा. देवरी
				123/6	निजी	सिंचित	0.052	शरदकुमार वल्द दीनानाथ सा. देवरी
				124	निजी	असिंचित	0.177	शोभाराम वल्द छिमाधर गौड सा. देह
				284	निजी	असिंचित	0.091	रेवती बाई, मोहनबाई, ताराबाई, पूनाबाई, करसूरीबाई, भागबाई, तुलसाबाई पुत्री नन्हेबीर सा. देह
				282/1	निजी	सिंचित	0.024	विजयकुमार वल्द घासीराम सा. जबलपुर
				125	शासकीय	असिंचित	0.367	म.प्र. राज्य शासन
				135	निजी	सिंचित	0.002	अनिलकुमार वल्द हुकमचंद सा. देवरी
				137	निजी	सिंचित	0.047	लक्ष्मीप्रसाद वल्द बट्टूलाल सा. देह
				194/1	निजी	सिंचित	0.020	कुमरसींग, जगतसींग वल्द हरीसींग सा. देह

				192/1	निजी	असिंचित	0.006	नन्हेलाल, मदन, मनोहर, प्रेम पिस, लच्छू कल्लोबाई बालिग देववती ना.बा. पुत्री लच्छू बली व खुद मा चन्द्रानी वेबा लच्छू भगवानदास बल्द गोरिलाल सा. देह
				134/2, 192/2	निजी	असिंचित	0.015	लक्ष्मीप्रसाद बल्द बदूलाल सा. देह
				19	शासकीय	असिंचित	0.007	म.प्र. राज्य शासन
				189	निजी	सिंचित	0.026	श्रीमति लक्ष्मीबाई जोजे भगवत सिंह सा. देह
				172	शासकीय	असिंचित	0.008	म.प्र. राज्य शासन
				187	शासकीय	असिंचित	0.001	म.प्र. राज्य शासन

[फा. सं. 11016/16/2007-एन 2]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2008

S.O. 289(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1427 (E), dated the 17 August, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening), maintenance, management and operation of National Highway No.26, including construction of bypass, on the stretch of land from km. 239.000 to Km.287.000 (Jhansi-Lakhnadon Section) in District Sagar in the State of Madhya Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Rajya ki nayi Duniya" and "Raj Express," both dated the 2nd September, 2007, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km 239.000 to km 287.000 (Jhansi - Lakhnadon Section) of the National Highway No.26 in the State of Madhya Pradesh

Serial number	Name of the district	Name of the tehsil	Name of the village	Survey/ Khasra number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the land owner/interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sagar	Deori	(1) Semrakheri	75	Government	Nala	0.104	M.P. Govt
				74/1	Private	Irrigated	0.150	Parshotam, Prahlad, Shevsingh S/o Kanai, Brijrani Late Kanai
				74/2	Private	Irrigated	0.040	Mohan S/o Padam Singh
				73	Private	Unirrigated	0.028	Parshotam, Prahlad, Shevsingh S/o Kanai, Brijrani Late Kanai Mohan Bhaiyaram S/o Padam Singh Nirbhaya Singh Harishankar Dilip Sarman Bihari S/o Naran Singh
				71/3	Private	Unirrigated	0.700	Nidhi W/o Suneel kumar, Sagar
				71/4	Government	Small Grass	0.120	M.P. Govt
				150	Private	Irrigated	0.020	Ramsingh S/o Baijnath
				39	Government	Water	0.001	M.P. Govt
				42	Government	Small Grass	0.001	M.P. Govt
				43	Government	Rasta	0.001	M.P. Govt
				154/2	Private	Irrigated	0.232	Sourabh S/o Shivdyal Soni, Devri
				44/1	Government	Small Grass	0.160	M.P. Govt
				173	Private	Irrigated	0.030	Sourabh S/o Shivdyal Soni, Devri
				172	Private	Irrigated	0.190	Babulal S/o Ganesh Prasad, Devri
				174	Private	Irrigated	0.040	Rajkumar S/o Laxmiprasad, Silari
				175	Private	Irrigated	0.124	Ramsingh S/o Baijnath
				149/2	Private	Irrigated	0.080	Pratap Girdhari, Chooraman S/o Ramdyal, Jhunku
				148/1	Private	Irrigated	0.088	Prince s/o Nareshchand, Sagar
				148/2	Private	Irrigated	0.020	Parvati Late Gotiram Kamal, Bhagwan singh S/o Gotiram, Premrata D/o Gotiram
				148/3	Private	Irrigated	0.012	Anarkali W/o Shivkumar, Devri
				68	Government	Rasta	0.005	M.P. Govt
				152	Government	Road	2.700	M.P. Govt
				69	Government	Road	1.420	M.P. Govt
			(2) Silari	455	Government	Nala	0.040	M.P. Govt
				456	Private	Irrigated	0.189	Manoj Kumar S/o Laxmi Narayan Sa. Beldhana
				468/1	Government	Nala	0.060	M.P. Govt
				239	Private	Irrigated	0.110	Ravishankar S/o Laxmi Prasad Sa. Beldhana
				465	Private	Unirrigated	0.008	Ramakant, Nandkishor Pish. Adutinandan Beldhana

				461	Private	Irrigated	0.303	Ram Bai W/o Laxmi Prasad, Laxmi Prasad S/o Shiv Prasad
				462	Private	Irrigated	0.300	Gulab, Ramsahay, Shevram, Prakash, Omkar, Pish Tulsiram, Kusumrani Late Tulsiram, Prabha, Mamta, Vimla Bai, Choti Bai D/o Tulsiram
				490	Government	Rasta	0.023	M.P. Govt
				499/1	Private	Unirrigated	0.051	Rati Bai, Neema Bai, Sushila Bai D/o Kashiram, Lakhan, Tulsiram, Hukum, Munna Pish. Mannulal
				499/2	Private	Unirrigated	0.056	Dinesh, Mayank S/o Tulsiram
				499/3	Private	Unirrigated	0.005	Arun Kumar S/o Parashram. Deori
				500/1	Private	Irrigated	0.230	Harikrishana S/o Gopal Prasad Beldhana
				500/7	Private	Unirrigated	0.320	Jitendra Kumar S/o Sheetal Prasad Sagar
				511/1	Private	Unirrigated	0.051	Ramkishan, Ashok Kumar Naba. S/o And Raghuvar Prasad
				529/3	Private	Irrigated	0.210	Kureshavi W/o Ramjan Khan Deori
				529/4	Private	Irrigated	0.020	Karim Khan, Sharif Kha Pish. Bhopal Khan Deori
				541	Private	Irrigated	0.070	Shikhar Chand S/o Kanchaidi Beldhana
				544	Private	Irrigated	0.160	Shikhar Chand S/o Kanchaidi Beldhana
				545	Government	Rasta	0.047	M.P. Govt
				458	Private	Irrigated	0.380	P.M.M. Vadsha S/o P.M. Yusuf Jhunku
				536	Private	Irrigated	0.030	Mahgu, Mannu, Mahesh, Pish. Babulal, Rambati D/o Babulal
			(3) Jhunku	311	Private	Irrigated	0.018	Kundan Singh S/o Mohan Singh
				312/4	Private	Unirrigated	0.120	Sadar Madarsa, Umarbin, Khattab. Jhunku Muhattam Hafij, Mo. Shaa'id Rahatgarh, Nigrani Irada W/o Sidif, Aamiya, Arbiya, Hathora, Dist. Banda
				312/7	Private	Unirrigated	0.003	Allauddin S/o Subrati
				312/8	Private	Unirrigated	0.004	Hafij, Shahid, Ahmad S/o Ahmad Noori
				313/2	Private	Unirrigated	0.060	Umarbin, Khitab, Madarsa Deori, Mo. Hafij, Shahid S/o Ahmad Noori
				314	Government	Water	0.030	M.P. Govt
			(4) Rajolla	62/1	Private	Irrigated	0.239	Champa Bai D/o Khet Singh Beldhana
				62/2	Private	Irrigated	0.100	Jamil khan S/o Dibba khan
				44	Government	Water	0.010	M.P. Govt

			64	Private	Irrigated	0.047	Maansingh, Tulsiram Pish. Balram, Phoolrani Late Balram, Babulal, Vijay, Shridhar, Bhujbal, Phoolsingh, Pish. Dhansingh, Bali Bai D/o Dhansingh Jagrani, Late Dhansingh, Chandram, Bhaiyaram, Kishori Pish Manohar, Indrari Late Manohar, Konsha Bai, Talsa Bai D/o Manohar, Jamna Prasad, Thamman, Shivprasad, Baijnath, Naran, Pish Parmanand, Ramdulari Late Parmanad, Ganeshi Bai, Bhag Bai D/o Parmanad Beldhana
			249	Private	Irrigated	0.040	Baijanti D/o Sev Prasad
			65	Government	Water	0.049	M.P. Govt
			67	Government	Rasla	0.240	M.P. Govt
			72	Private	Irrigated	0.162	Indrani W/o Manohar Beldhana
			70/1	Private	Irrigated	0.145	Babulal, Vijay, Shridhar, Bhujbal, Phoolsingh, S/o Dhansingh, Balobai D/o Dhansingh, Chandrani, Bhaiyaram, Kishori S/o Manohar, Jamna Prasad, Thamman, Shivprasad, Baijnath, Nayan S/o Parmanand, Ramdulari Late Parmanand, Ganeshi Bai, Bhagbai D/o Parmanand
			250	Private	Irrigated	0.146	Vipin S/o Gyanchand Deori
			255	Private	Irrigated	0.150	Ghasiram, Phadali S/o Kirath, Talsa D/o Kirath, Mahgu, Gorelal S/o Chaitu, Shakun Bai D/o Nanna, Phoolrani Late Nanna
			259/3	Private	Irrigated	0.500	Sudhir S/o Subhash Chand Beldhana
			259/4	Private	Irrigated	0.240	Maansingh, Tulsiram Pish. Balram, Babulal, Vijay, Shridhar, Bhujbal, Phoolsingh, Pish. Dhansingh, Bali Bai D/o Dhansingh, Chandram, Bhaiyaram, Kishori Pish Manohar, Indrari Late Manohar, Talsa Bai D/o Manohar, Jamna Prasad, Thamman, Shivprasad, Baijnath, Naran, Pish Parmanand
			257/5	Private	Irrigated	0.487	Santosh S/o Nanhebbai Deori
			83	Private	Irrigated	0.013	Ravishankar S/o Shivsahay Beldhana
			292	Government	Water	0.020	M.P. Govt

(5) Gopalpura	30/2	Private	Irrigated	0.150	Tikaram S/o Uddet, Gopalpura
	31/5	Private	Unirrigated	0.010	Ramji S/o Ramswarup, Gopalpura
	31/6	Private	Unirrigated	0.040	Gopal S/o Kalyan
	31/7	Private	Unirrigated	0.080	Murlidhar, Deori
	31/8	Private	Unirrigated	0.040	Mohan S/o Haike
(6) Chhevla	42/2	Private	Unirrigated	0.030	Dharmendra S/o Kanhaiyalal, Deori
	20/3	Private	Irrigated	0.027	Amar Singh
(7) Richhai	349	Government	Road	0.100	M.P. Govt
	350	Government	Unirrigated	0.074	M.P. Govt
	351	Government	Unirrigated	0.010	M.P. Govt
	118/2	Private	Unirrigated	0.003	Makhanlal S/o Parmanand
	90	Private	Unirrigated	0.091	Ajay S/o Narayan, Usha Ghuri D/o Narayan, Lakhan Lala S/o Narayan
(8) Dhangua	124/5	Private	Irrigated	0.020	Monovan, Monum, Achhelal, Ramesh S/o Lalai, Richhai
(9) Maharajpur	232/1	Government	Irrigated	0.001	M.P. Govt
	76/7	Private	Unirrigated	0.009	Hrishabh Kumar S/o Motilal Jain
(10) Niwari	93/1	Private	Irrigated	0.092	Dalchand S/o Babulal, Panari
(11) Singhpur Madhpiaria	73/1	Private	Irrigated	0.020	Prakash S/o Parmanand
	153/173	Private	Irrigated	0.409	Savitri Bai D/o Kanhaiyalal, Titarpani
	153	Private	Irrigated	0.144	Palu S/o Ratan
	148	Government	Rasta	0.005	M.P. Govt
	135/1	Private	Unirrigated	0.260	Prem Bai D/o
	135/2	Private	Irrigated	0.200	Phool Singh S/o Bhagwan Singh, Singhpur
	133	Government	Small Grass	0.030	M.P. Govt
				0.029	Ramnath, Mahesh, S/o Rajaram, Avdhesh Kumar S/o Baijanath Urmila, Nirmla S/o Baijnath, Bhagwatsharan S/o Gorishankar, Usha Bai D/o Gorishankar, Sushila Bai W/o Gorishankar
	134	Private	Unirrigated		
(12) Kanshera	7	Government	Small Grass	0.719	M.P. Govt
	9/1, 9/2	Private	Irrigated	1.400	Laxmi Narayan, Balmukund S/o Bhuvani Prasad, Manish Kumar, Aashish Kuimar S/o Deenanath Deori
	94	Private	Irrigated	0.020	Raghunath, Bhagwandas, Ramesh, Sukhram S/o Devkaran Kachhi, Doma
	111/1	Private	Irrigated	0.113	Praveen Kumar S/o Dasrathlal Beldhana
	111/2	Private	Irrigated	0.020	Ramcharan, Parshottam, Bhagwat Prasad, Ganesh Prasad Pish Bhagwandas, Durga Bai Late Bhagwandas Deori

				109/1	Private	Irrigated	0.165	Kudau Singh, Bhoia Singh, Parashram Pish Bhuvani Singh, Gora Bai D/o Bhuvani Singh Ramvati Late Bhuvani Singh
				104	Private	Irrigated	0.027	Ashish S/o Deenanath, Sharad Kumar S/o Laxminarayan Deori
				105	Private	Irrigated	0.058	Laxmi Narayan S/o Bhuvani Prasad Deori
				204	Private	Irrigated	0.020	Vinay Kumar S/o Raghunandan
				205	Private	Irrigated	0.218	Kamal S/o Chaikodi Deori
				194	Government	Rasta	0.722	M.P. Govt
				206	Private	Irrigated	0.004	Balchandra S/o Nanhelal Deori
				201	Private	Irrigated	0.085	Bajinath, Shivprasad Balig Babulal Naba. Pish Narmda Prasad, Palak and Self Mother Chironja Bai Late Narmda Prasad Deori
				200/3	Private	Irrigated	0.032	Anil Kumar S/o Komal Chand Beldhana
				210/2	Private	Irrigated	0.060	Parashram S/o Babulal Kachhi
				213/1	Private	Irrigated	0.050	Bhailal S/o Babulal Kachhi
				209/1	Private	Irrigated	0.060	Tulsiram s/o Nannuram Deori
			(13) Chhir	124/1	Private	Irrigated	0.180	Jagannath, Laxminarayan S/o Ramprasad, Rajendra Prasad S/o Laxminarayan Sagar
				125/7	Private	Irrigated	0.004	Rajesh Kumar S/o Prakashchand Jain Gandhi Ward Deori
				136/2	Private	Irrigated	0.160	Manohar Rao, Krishana Rao, Pish. Narayan Rao, Bhagchand, Diwakar Rao Deori
				136/5. 6	Private	Irrigated	0.020	Rajram S/o Beni Madhav Deori
				136/10	Private	Irrigated	0.008	Arvind Kumar S/o Shankarlal Telang Katani
				161/2	Private	Irrigated	0.058	Ramnath S/o Chotelal Kachhi
				161/4	Private	Irrigated	0.012	Balkishan S/o Ram Prasad Kachhi
				161/1	Private	Irrigated	0.100	Manish Kumar S/o Madhav Prasad, Saurabh Kumar S/o Ramratan Deori
				161/3	Private	Irrigated	0.010	Umakant S/o Kanchaidilal Deori
				162/1	Private	Irrigated	0.003	Rupnarayan S/o Balchand, Ramdas S/o Jhalkan, Sarman S/o Chotelal Kachhi
				162/2	Private	Irrigated	0.017	Sarman S/o Chotelal
				205	Private	Irrigated	0.060	Kamalrani W/o Ramprasad Kachhi
				204	Private	Unirrigated	0.040	Murlihar S/o Bhagirath
				203	Private	Unirrigated	0.020	Damani S/o Karodi

				202	Private	Unirrigated	0.020	Ram Prasad S/o Phadeli
				201	Private	Unirrigated	0.016	Shobharam S/o Bhaiyaram Deori
				200	Private	Unirrigated	0.010	Vansh S/o Maansingh Deori
				199/1	Private	Unirrigated	0.010	Prakash S/o Balchand Deori
				199/2	Private	Unirrigated	0.010	Aman Kumar S/o Nemchand Deori
				198	Private	Unirrigated	0.020	Mahendra Kumar S/o Ramdhun Deori
				197/1	Private	Irrigated	0.032	Shankar S/o Jagannath
				197/16	Private	Irrigated	0.008	Shankar S/o Jagannath
				197/2	Private	Unirrigated	0.040	Muridhar S/o Bhagirath
				197/3	Private	Irrigated	0.016	Sunita Bai W/o Anil Kumar Deori
				197/4	Private	Irrigated	0.008	Indra W/o Pramod Kumar Bara Shivni
				197/5	Private	Irrigated	0.048	Raghunath Singh, Kailash Singh, Hamam Singh, Balram Singh, Ashok Singh, Brijendra Singh, plsh Gandharv Deori
				197/13	Private	Irrigated	0.008	Indra W/o Pramod Kumar Bara Shivni
				197/14	Private	Irrigated	0.020	Sunita Bai W/o Anil Kumar Jabalpur
				197/6	Private	Unirrigated	0.016	Kamla Bai D/o Phoolchand Deori
				197/7	Private	Unirrigated	0.010	Parasram S/o Shalakraam Deori
				197/8	Private	Unirrigated	0.008	Ghanshyam S/o Shivprasad
				197/9	Private	Unirrigated	0.014	Kailash S/o Babulal, Akash Naba. Babbli Savita Bai Deori
				197/10	Private	Unirrigated	0.032	Ramesh Chand S/o Joharilal Jain Banda
				197/11	Private	Unirrigated	0.008	Ramesh Chand S/o Joharilal Jain Banda
				197/12	Private	Unirrigated	0.016	Arvind Kumar S/o Radhelal, Kiran Bai Late Nizam Kumar Deori
				196	Private	Unirrigated	0.012	Tulsiram S/o Raghunath Deori
				195/3	Private	Irrigated	0.050	Namda Prasad S/o Balram
				195/2	Private	Irrigated	0.050	Nandram S/o Balram
				195/4	Private	Irrigated	0.120	Manoharlal S/o Balram
				194/1	Government	Unirrigated	0.020	M.P. Govt Education Department
				194/3	Private	Irrigated	0.060	Jairam S/o Ramcharan
				194/4	Private	Irrigated	0.050	Pukharaj S/o Ramcharan
				206	Government	Road	1.470	M.P. Govt NH-26
				225/9	Private	Irrigated	0.002	Santosh Kumar, Sanjay Kumar S/o Shikhar Deori
				225/16	Private	Irrigated	0.004	Tejram Naba. Premnarayan Bali Ma Nanhi Bai W/o Premnarayan Deori
				225/15	Private	Unirrigated	0.008	Parasram S/o Babulal Deori
				225/17	Private	Unirrigated	0.012	Anup, Atul Naba. S/o And Bali Mahesh Hukumchand Tendudawar

		225/18	Private	Unirrigated	0.004	Abhay Kumar Naba. S/o and Bali Jinesh Kumar S/o Hukumchand Deori
		225/19	Private	Unirrigated	0.004	Asha W/o Mahesh, Mahesh S/o Hukumchand Deori
		225/20	Private	Unirrigated	0.012	Alka W/o Jitendra Kumar Deori
		224/1	Private	Unirrigated	0.111	Bhagwandas, Jairam, Manohar Pish Ratan, Mukundilal S/o Balkishun, Tulsiram, Anantram, Parashram, Bhaiyalal, Kanhaiyalal Pish Babbu, Beti Bai, Laxmi Bai D/o Bablu Indrani Late Babbu
		224/2	Private	Unirrigated	0.020	Chotelal S/o Babulal
		211/1	Private	Unirrigated	0.002	Gulabrani Late Bhagwandas Khilona Late Jamna Prasad
		211/2	Private	Unirrigated	0.020	Saurabh S/o Shivdayal Soni Deori
		211/3	Private	Unirrigated	0.065	Jhalkan S/o Kahaiyalal, Tulsiram S/o Babulal
		211/4	Private	Unirrigated	0.067	Mahendra Singh S/o Prakash Singh, Prahlad Singh, Pushpendra Singh, Pish Murlidhar
		211/5	Private	Unirrigated	0.012	Sitaram S/o Basant Kumar Deori
		211/6	Private	Unirrigated	0.026	Gulabrani W/o Mitthulal Jain Deori
		211/7	Private	Unirrigated	0.016	Ganesh S/o Bhagwandas Deori
		211/8	Private	Unirrigated	0.012	Surendra S/o Kanchaidi Deori
		207/3	Private	Unirrigated	0.070	Shivani, Kanchan Naba. D/o Suresh Kumar Bali and Self Ma Kiran Late Suresh Kumar Deori
		207/2	Private	Unirrigated	0.213	Rajendra Kumar S/o Babulal Soni Deori
		207/1	Private	Unirrigated	0.036	Rakesh S/o Shobharam Deori
		136/8	Private	Unirrigated	0.020	Shrinivas S/o Benimadhav Deori
		140/2	Private	Unirrigated	0.030	Rajaram S/o Beni Madhav Deori
		139	Government	Nala	0.020	M.P. Govt
		143	Government	Nala	0.027	M.P. Govt
		225/5	Private	Unirrigated	0.010	Arvind kumar, Ajay Kumar Pish Mulay Chand Deori
		76	Government	Road	0.130	M.P. Govt
	(14) Dhultara	89/3	Private	Irrigated	0.253	Sugreem S/o Premnarayan Deori
		89/4	Private	Irrigated	0.120	Parasram S/o Premnarayan
		89/8	Private	Unirrigated	0.010	Tejram S/o Mohan Lal Chhir
		91/1	Private	Irrigated	0.100	Kamlesh Kumar S/o Bhaiyalal Deori
		96/2	Private	Irrigated	0.030	Bhalchandra S/o Diwakar Rao Deori

				136/2	Private	Irrigated	0.060	Kusum W/o Dayashankar Karaili
				169	Private	Irrigated	0.100	Sarla W/o Khemchand Deori
				91/2, 92	Private	Irrigated	0.210	Aman Naba. S/o Bali Narendra Kumar Deori
				123/3	Private	Irrigated	0.108	Rajeev Kumar S/o Mahendra Kumar Deori
				123/5	Private	Irrigated	0.009	Manish Kumar S/o Deenanath Deori
				123/6	Private	Irrigated	0.052	Sharad Kumar S/o Deenanath Deori
				124	Private	Unirrigated	0.177	Shobharam S/o Chimadhar Gaund
				284	Private	Unirrigated	0.091	Rewti Bai, Mohan Bai, Tara Bai, Poona Bai, Kastoori Bai, Bhag Bai, Tulsa Bai D/o Nanheveer
				282/1	Private	Irrigated	0.024	Vujay Kumar S/o Ghasiram Jabalpur
				125	Government	Unirrigated	0.367	M.P. Govt
				135	Private	Irrigated	0.002	Anil Kumar S/o Hukumchand Deori
				137	Private	Irrigated	0.047	Laxmi Prasad S/o Battulal
				194/1	Private	Irrigated	0.020	Kumarsingh Jagat Singh S/o Harisingh
				192/1	Private	Unirrigated	0.006	Nanhelal, Madan, Manohar, Prem Pish. Lachhu, Kallo Bai Balig Devvati Naba. D/o Lachhu Bali And Self Ma Chandrani Late Lachhu Bhagwandas S/o Gorelal
				134/2, 192/2	Private	Unirrigated	0.015	Laxmi Prasad S/o Battulal
				191	Government	Unirrigated	0.007	M.P. Govt
				189	Private	Irrigated	0.026	Smt. Laxmi Bai W/o Bhagwat Singh
				172	Government	Unirrigated	0.008	M.P. Govt
				167	Government	Unirrigated	0.001	M.P. Govt

[F. No. 11016/16/2007-N II]

PRABHAKAR, Dy. Secy.